



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

9 नवम्बर 2007



खंड 22

संख्या 45

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ रुपए)

मद	2006	2007		घट-बढ़	
	3 नवम्बर	26 अक्टूबर	2 नवम्बर #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	4,60,294	5,18,286	5,23,589	5,303	63,295
संचलन में नोट	4,60,274	5,18,266	5,23,574	5,308	63,300
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	20	20	15	-4	-5
जमाराशियां					
केंद्र सरकार	3,976	23,835	31,305	7,470	27,329
बाजार स्थिरीकरण योजना	38,778	1,74,277	1,77,838	3,560	1,39,060
राज्य सरकार	41	41	41	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1,31,935	2,24,932	2,27,021	2,089	95,086
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,718	2,689	2,920	231	1,202
अन्य बैंक	6,428	10,474	10,541	67	4,113
अन्य	11,650	11,794	11,824	30	174
अन्य देयताएं	1,64,600	1,36,615	1,41,688	5,072	-22,912
कुल देयताएं / आस्तियां	8,19,420	11,02,944	11,26,767	23,823	3,07,347
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	7,19,192	10,06,040	10,16,786	10,746	2,97,594
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	27,320	29,275	30,712	1,437	3,392
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	60,570	60,654	70,738	10,084	10,168
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	—	—	—	—
राज्य सरकारें	436	343	1,199	856	763
नाबार्ड	2,545	—	—	—	-2,545
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	870	—	—	—	-870
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	21	—	19	19	-2
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	84	83	83	—	-1
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	3,973	2,750	2,750	—	-1,223
अन्य आस्तियां	4,408	3,798	4,480	681	72

(1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं।

(2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।

(3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	2 नवम्बर 2007 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2007 की समाप्ति पर		दिसंबर 2006 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भंडार	10,49,243	266,518	12,134	4,068	1,81,021	67,339	2,65,261	89,267	2,99,781	99,402
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	10,16,786	258,264	10,746	3,635 *	1,80,189	66,340	2,64,048	88,077	2,97,594	97,873
(ख) स्वर्ण	30,712	7,811	1,437	444	1,139	1,027	1,888	1,294	3,392	1,743
(ग) विशेष आहरण अधिकार	52	13	—	—	44	11	48	12	19	6
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	1,693	430	-49	-11	-351	-39	-723	-116	-1,224	-220

* : अ.डॉ. के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यसंकट का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक जापान मद के रूप में दिखाया गया है उसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल किया गया है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ रुपए)

मद	26 अक्टूबर 2007 को बकाया #	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़				
		पखवाड़े में	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2006-2007	2007-2008	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	36,481	-864	-3,688	-4,292	-6,088	3,091
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	25,560	2,721	5,747	-9,839	2,963	-9,384
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	19,793	363	-141	7,507	2,815	11,044
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां@	28,77,955	19,921	1,77,849	2,69,646	3,73,110	5,91,057
		(0.7)	(8.4)	(10.3)	(19.5)	(25.8)
मांग	4,10,060	-4,134	-7,739	-19,077	68,342	53,159
मीयादी @	24,67,895	24,055	1,85,588	2,88,723	3,04,768	5,37,898
उधार ⁽³⁾	90,304	4,160	2,205	4,468	3,490	4,955
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	2,61,354	-21,653	24,620	19,350	19,437	47,954
रिजर्व बैंक से उधार	—	—	-288	-6,245	1,200	-1,200
पास में नकदी एवं रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	2,41,636	7,253	-2,121	45,305	22,370	1,03,651
पास में नकदी	16,704	1,006	2,681	595	4,774	977
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	2,24,932	6,247	-4,802	44,710	17,595	1,02,673
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	31,531	2,417	-320	2,444	1,721	5,389
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	14,956	5,330	5,021	-3,311	-4,669	-3,684
बैंकों को अग्रिम	3,385	-987	1,421	-2,818	2,251	-2,227
अन्य आस्तियां	27,697	320	2,389	4,194	9,087	15,188
निवेश⁽⁵⁾	9,49,291	6,372	40,054	1,58,860	2,802	1,91,783
		(0.7)	(5.6)	(20.1)	(0.4)	(25.3)
सरकारी प्रतिभूतियों में	9,29,559	6,027	40,533	1,54,579	5,918	1,88,284
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	19,732	344	-480	4,281	-3,116	3,499
बैंक ऋण	20,25,879	6,704	1,47,012	96,966	3,66,765	3,71,790
		(0.3)	(9.8)	(5.0)	(28.5)	(22.5)
खाद्य ऋण	35,866	-1,153	-4,058	-10,654	-3,172	-766
खाद्येतर ऋण	19,90,012	7,857	1,51,070	1,07,620	3,69,937	3,72,556
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	19,41,426	6,369	1,47,876	99,801	3,55,146	3,63,096
देशी बिल - खरीदे गए	10,997	-1,223	-2,611	-4,916	725	694
भुनाए गए ⁽⁶⁾	32,443	470	-907	1,143	4,635	2,533
विदेशी बिल - खरीदे गए	13,726	13	500	-2,413	2,292	151
भुनाए गए	27,287	1,076	2,155	3,350	3,968	5,315
नकद-जमा अनुपात	8.40					
निवेश-जमा अनुपात	32.98					
ऋण-जमा अनुपात	70.39					

@ : इन आंकड़ों में 29 दिसंबर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट की चुकौती की राशि भी शामिल है।

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2006	2007					
	27 अक्टूबर	21 सितंबर	28 सितंबर	5 अक्टूबर	12 अक्टूबर	19 अक्टूबर	26 अक्टूबर
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आइडीबीआई ⁽²⁾	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
मूल उधार दर ⁽³⁾	11.00-11.50	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25
जमा दर ⁽⁴⁾	6.75-8.00	8.00-9.50	8.00-9.50	8.00-9.50	8.00-9.50	8.00-9.50	8.00-9.50
मांग मुद्रा दर (न्यून/उच्च) ⁽⁵⁾							
- लिये गए उधार	5.70/7.85	5.50/8.00	2.75/9.50	4.00/6.55	4.00/6.65	3.00/6.64	3.75/6.20
- दिये गए उधार	5.70/7.85	5.50/8.00	2.75/9.50	4.00/6.55	4.00/6.65	3.00/6.64	3.75/6.20

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) न्यूनतम मीयादी उधार दर (एमटीएलआर)। (3) पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित मूल उधार दर। (4) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित। (5) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बाँडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपये)

मद	2007 - 2008			2006 - 2007		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (3)-(2)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (6)-(5)
	2007			2006		
	30 मार्च	26 अक्तूबर		31 मार्च	27 अक्तूबर	
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक ऋण	19,28,913	20,25,879	96,966 (5.0)	15,07,077	16,54,089	1,47,012 (9.8)
क. खाद्य ऋण	46,521	35,866	-10,654	40,691	36,633	-4,058
ख. खाद्येतर ऋण	18,82,392	19,90,012	1,07,620 (5.7)	14,66,386	16,17,456	1,51,070 (10.3)
2. निवेश	83,394	77,734	-5,660	79,464	82,067	2,603
क. वाणिज्यिक पत्र	8,978	6,754	-2,224	4,821	8,519	3,698
ख. निम्न (क+ख) द्वारा जारी शेयर	18,344	20,581	2,237	12,775	16,178	3,404
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	2,126	2,011	-115	2,274	2,073	-201
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	16,218	18,570	2,352	10,501	14,105	3,604
ग. निम्न (क+ख) द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	56,072	50,399	-5,673	61,868	57,369	-4,499
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	28,472	25,061	-3,411	32,345	31,356	-989
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	27,600	25,338	-2,262	29,523	26,013	-3,510
3. कुल (1ख+2)	19,65,786	20,67,746	1,01,960	15,45,851	16,99,523	1,53,673

टिप्पणी : 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

3. इनमें 3 मई 2002 से हुए विलय के प्रभाव शामिल हैं।

4. आंकड़ों के पूर्णिकन के कारण घटकों का योग कुछ भिन्न हो सकता है।

6. विदेशी मुद्रा दरें - हाजिर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा	2007					वार्षिक वृद्धि (+) / नस (-) (प्रतिशत)				
	29 अक्टूबर	30 अक्टूबर	31 अक्टूबर	1 नवम्बर	2 नवम्बर	29 अक्टूबर	30 अक्टूबर	31 अक्टूबर	1 नवम्बर	2 नवम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर	39.3800	39.4000	39.3200	39.3200	39.3700	—	14.44	14.50	14.27	14.12
यूरो	56.8100	56.6900	56.7500	56.9000	56.8300	—	1.11	0.86	0.77	0.86
फेडरल की सांकेतिक दरें (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर { खरीद	39.3850	39.3750	39.3150	39.3100	39.3500	—	14.51	14.51	14.28	14.17
{ बिक्री	39.3950	39.3850	39.3250	39.3200	39.3600	—	14.51	14.51	14.28	14.16
फ़ड { खरीद	80.9625	81.0450	81.3350	81.7875	81.7775	—	5.51	5.19	4.74	4.76
स्टर्लिंग { बिक्री	81.0000	81.0825	81.3675	81.8300	81.8175	—	5.52	5.20	4.74	4.75
यूरो { खरीद	56.8175	56.6500	56.7550	56.8850	56.8025	—	1.19	0.87	0.76	0.89
{ बिक्री	56.8350	56.6750	56.7775	56.9075	56.8275	—	1.20	0.86	0.76	0.91
100 येन { खरीद	34.4775	34.3850	34.2725	34.0600	34.3250	—	11.60	11.77	12.77	11.68
{ बिक्री	34.5025	34.4100	34.2975	34.0775	34.3475	—	11.60	11.76	12.77	11.65
अमरीकी डॉलर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमियम (प्रतिशत वार्षिक)										
1 - माह	1.07	1.68	1.68	1.68	1.68					
3 - माह	1.02	1.37	1.73	1.42	1.32					
6 - माह	1.19	1.45	1.63	1.48	1.37					

— : पिछले वर्ष के तदनुसूची दिन बाजार बंद।

टिप्पणी : 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2007		परखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2006-2007		2007-2008		2006		2007	
	31 मार्च #	26 अक्टू. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम₃	33,10,278	36,08,184	25,896	0.7	2,16,784	7.9	2,97,906	9.0	4,57,266	18.4	6,61,854	22.5
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	4,83,471	5,06,539	4,605	0.9	38,546	9.3	23,068	4.8	71,329	18.8	54,874	12.1
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	4,74,228	4,54,527	-3,905	-0.9	-8,465	-2.1	-19,701	-4.2	73,082	22.5	56,605	14.2
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा @	23,45,083	26,42,291	25,338	1.0	1,88,037	9.9	2,97,208	12.7	3,11,956	17.5	5,51,084	26.4
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	7,496	4,826	-141	-2.8	-1,334	-19.4	-2,670	-35.6	900	19.4	-708	-12.8
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	8,38,177	8,52,761	6,707	0.8	43,203	5.6	14,584	1.7	37,101	4.8	42,964	5.3
(क) रिजर्व बैंक	5,752	-1,37,066	-355		2,596		-1,42,818		30,547		-1,47,799	
(ख) अन्य बैंक	8,32,425	9,89,828	7,063	0.7	40,607	5.4	1,57,403	18.9	6,554	0.8	1,90,763	23.9
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	21,23,362	22,32,299	7,295	0.3	1,52,669	9.0	1,08,937	5.1	3,75,530	25.5	3,86,626	20.9
(क) रिजर्व बैंक	1,537	1,383	—	—	-3	-0.2	-154	-10.0	-3	-0.2	-1	-0.1
(ख) अन्य बैंक	21,21,825	22,30,916	7,295	0.3	1,52,672	9.0	1,09,091	5.1	3,75,532	25.6	3,86,627	21.0
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	9,13,179	10,67,124	27,195	2.6	75,137	10.3	1,53,944	16.9	1,23,118	18.2	2,65,793	33.2
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	8,286	8,694	—	—	-700	-8.0	407	4.9	-621	-7.2	640	7.9
(v) बैंकिंग क्षेत्र की मीयादी जमा से भिन्न निवल मुद्देतर देयताएं उनमें से :												
रिजर्व बैंक की निवल मुद्देतर देयताएं	5,72,727	5,52,694	15,302	2.8	53,524	11.5	-20,033	-3.5	77,861	17.7	34,168	6.6
	1,80,348	1,38,427	14,251	11.5	47,814	38.6	-41,921	-23.2	47,616	38.3	-33,387	-19.4

@ : इन आंकड़ों में 29 दिसम्बर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट की चुकौती की राशि भी शामिल है।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2007		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2006-2007		2007-2008		2006		2007	
	31 मार्च #	2 नवम्बर.#	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आरक्षित मुद्रा	7,09,016	7,77,606	7,725	1.0	40,813	7.1	68,590	9.7	82,877	15.6	1,63,737	26.7
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	5,04,225	5,32,268	5,308	1.0	37,652	8.7	28,043	5.6	62,143	15.3	63,940	13.7
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	1,97,295	2,40,482	2,388	1.0	4,570	3.4	43,187	21.9	19,873	16.5	1,00,402	71.7
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	7,496	4,856	30	0.6	-1,409	-20.5	-2,640	-35.2	861	18.7	-604	-11.1
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	5,752	-1,37,176	-110		10,280		-1,42,928		18,574		-1,55,593	
	2,136	-1,38,334	-966		12,862		-1,40,470		17,495		-1,56,356	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	9,173	1,402	19		-1,140		-7,770		557		-4,640	
	7,635	19	19		-1,137		-7,616		560		-4,640	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	8,66,153	10,47,481	12,183	1.2	73,511	10.9	1,81,328	20.9	1,05,084	16.4	3,00,986	40.3
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	8,286	8,694	—	—	-700	-8.0	407	4.9	-621	-7.2	640	7.9
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुद्देतर देयता	1,80,348	1,42,794	4,367	3.2	41,139	33.2	-37,554	-20.8	40,717	32.7	-22,345	-13.5

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो/रिवर्स रेपो की नीलामी

(करोड़ रुपए)

चलनिधि समायोजन सुविधा (तारीख)	रेपो अवधि (दिन)	रेपो (बढ़ाना)					रिवर्स रेपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि (+)/कमी (-) (6-11)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 अक्तूबर 2007	1	—	—	—	—	—	15	18,605	15	18,605	6.00	-18,605	18,605
30 अक्तूबर 2007	1	—	—	—	—	—	7	3,890	7	3,890	6.00	-3,890	3,890
31 अक्तूबर 2007	1	—	—	—	—	—	5	5,015	5	5,015	6.00	-5,015	5,015
1 नवम्बर 2007	1	—	—	—	—	—	10	11,560	10	11,560	6.00	-11,560	11,560
2 नवम्बर 2007	3	—	—	—	—	—	6	7,195	6	7,195	6.00	-7,195	7,195

@ : रातभर के रेपो को घटाकर।

' — ' : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपए)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. ब्क पर भार	कुल निर्गम (8+9+10)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91-दिवसीय खजाना बिल													
2007-2008													
4 अप्रैल	7 अप्रैल	2,000	111	8,612	1,200	15	2,000	1,200	—	3,200	98.07	7.9353	46,429
4 जुलाई	6 जुलाई	500	106	6,246	7,100	22	500	7,100	—	7,600	98.50	6.1908	70,356
3 अक्तू.	5 अक्तू.	3,500	94	5,383	4,000	80	3,500	4,000	—	7,500	98.28	7.1443	59,853
31 अक्तू.	2 नवम्बर	3,500	89	3,702	381	31	500	381	—	881	98.22	7.3105	64,684
182-दिवसीय खजाना बिल													
2007-2008													
4 अप्रैल	7 अप्रैल	1,500	88	7,005	—	5	1,500	—	—	1,500	96.18	7.9869	17,206
11 जुलाई	13 जुलाई	1,500	78	4,006	—	30	1,500	—	—	1,500	97.10	6.0535	23,301
3 अक्तू.	5 अक्तू.	2,500	71	4,990	—	48	2,500	—	—	2,500	96.51	7.3169	31,141
31 अक्तू.	2 नवम्बर	2,500	75	3,165	—	18	500	—	—	500	96.37	7.5758	30,991
364-दिवसीय खजाना बिल													
2007-2008													
11 अप्रैल	13 अप्रैल	2,000	112	8,010	130	10	2,000	130	—	2,130	92.90	7.6985	54,943
4 जुलाई	6 जुलाई	1,000	93	6,255	—	20	1,000	—	—	1,000	93.41	7.1663	55,325
10 अक्तू.	12 अक्तू.	3,000	154	11,232	—	31	3,000	—	—	3,000	93.19	7.3739	58,301
24 अक्तू.	26 अक्तू.	3,000	125	8,141	24	36	3,000	24	—	3,024	93.18	7.3624	60,040

टिप्पणियाँ : 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फार्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगिता बोलियों की अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में कर दिया गया परिवर्तित है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास संचयी नकद जमा शेष

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	दिनांक														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
26 अक्तू. 2007	13 अक्तूबर 2,16,936	14 अक्तूबर 4,33,873	15 अक्तूबर 6,40,782	16 अक्तूबर 8,65,605	17 अक्तूबर 10,99,388	18 अक्तूबर 13,22,438	19 अक्तूबर 15,43,705	20 अक्तूबर 17,65,257	21 अक्तूबर 19,86,808	22 अक्तूबर 22,00,845	23 अक्तूबर 24,20,796	24 अक्तूबर 26,39,935	25 अक्तूबर 28,58,934	26 अक्तूबर 30,82,835	
9 नवम्बर 2007	27 अक्तूबर 2,25,481	28 अक्तूबर 4,50,962	29 अक्तूबर 6,66,845	30 अक्तूबर 8,96,856	31 अक्तूबर 11,25,182	1 नवम्बर 13,45,820	2 नवम्बर 15,72,427	3 नवम्बर	4 नवम्बर	5 नवम्बर	6 नवम्बर	7 नवम्बर	8 नवम्बर	9 नवम्बर	

टिप्पणी : ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
13 अक्टू. 2006	64,482	2,513	4.75 — 8.50
5 जन. 2007	68,928	2,449	8.26 — 9.25
13 अप्रैल 2007	93,807	2,539	9.50 — 11.50
6 जुलाई 2007	1,02,992	4,186	6.25 — 9.69
14 सितंबर 2007	1,13,892	10,635	6.87 — 10.00
28 सितंबर 2007	1,18,481	9,930	6.87 — 10.00

@ : प्रभावी वार्षिक ब्याज दर परास।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 अक्टू. 2006	23,521	1,733	7.20 — 8.65
15 जन. 2007	23,758	1,255	8.30 — 9.58
15 अप्रैल 2007	19,013	1,952	10.00 — 14.00
15 जुलाई 2007	28,129	4,200	4.00 — 11.50
30 सितंबर 2007	33,614	3,515	7.70 — 12.00
15 अक्टूबर 2007	38,495	6,977	7.00 — 13.00

@ : पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बढ़ा दर का परास ।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 1993-94=100)

मद / समाप्त सप्ताह	भार	2006	2007		पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		21 अक्टू.	25 अगस्त*	20 अक्टू.#	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य	100.00	208.8	213.9	215.1	—	—	2.2	3.0
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	213.4	224.3	225.0	—	-0.5	4.2	5.4
(i) फल और सब्जियां	2.92	254.3	247.3	250.6	-0.4	-3.7	13.1	-1.5
ईंधन, विद्युत, प्रकाश और लुब्रिकेंट	14.23	328.7	322.4	323.7	0.1	0.5	1.1	-1.5
विनिर्मित उत्पाद	63.75	180.4	186.1	187.4	0.1	0.1	1.8	3.9
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	3.93	181.6	155.5	156.3	0.1	0.3	-4.6	-13.9
(ii) खाद्य तेल	2.76	154.6	171.1	172.2	0.1	0.6	5.3	11.4
(iii) सीमेंट	1.73	196.9	216.0	220.2	—	1.9	4.7	11.8
(iv) लोहा और इस्पात	3.64	259.5	266.4	277.1	0.2	-0.4	5.4	6.8

* : उपलब्ध अद्यतन अंतिम आंकड़े।

: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2006	2007				
	2 नवम्बर	29 अक्टूबर	30 अक्टूबर	31 अक्टूबर	1 नवम्बर	2 नवम्बर
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	13091.12	19977.67	19783.51	19837.99	19724.35	19976.23
एनएसई सीएनएस निफ्टी (3.11.1995=1000)	3791.20	5905.90	5868.75	5900.65	5866.45	5932.40

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त (टर्नओवर)*

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह						
	21 सितंबर 2007	28 सितंबर 2007	5 अक्टूबर 2007	12 अक्टूबर 2007	19 अक्टूबर 2007	26 अक्टूबर 2007	2 नवम्बर 2007
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	12,726	8,462	9,115	6,772	10,036	7,201	9,614
ख) दिए गए ऋण	14,165	9,299	10,250	7,315	10,857	8,348	11,172
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	1,486	865	1,149	558	827	1,151	1,559
ख) दिए गए ऋण	46	28	13	15	6	4	1
3. कुल							
क) लिए गए उधार	14,212	9,327	10,264	7,330	10,863	8,352	11,173
ख) दिए गए ऋण	14,212	9,327	10,264	7,330	10,863	8,352	11,173

टिप्पणी : 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* : इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य) @

(करोड़ रुपए)

मद	समाप्त सप्ताह					
	28 सितंबर 2007	5 अक्टूबर 2007	12 अक्टूबर 2007	19 अक्टूबर 2007	26 अक्टूबर 2007	2 नवम्बर 2007
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	37,462	32,844	26,150	25,613	61,207	54,450
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	351	434	951	138	191	490
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	2,028	4,043	7,212	4,427	6,509	4,618
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	571	3,864	3,835	3,312	2,288	2,081
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	2,756	6,744	8,578	1,045	4,367	977
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	29	77	113	341	—	25

@ : रेपो लेनदेन को छोड़कर।

* : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद में उसके अन्य कार्यालयों के लेनदेन भी शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

स्थिति की तारीख	वणिक्						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई			एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
15 अक्टूबर 2007	3,388	1,130	182	1,533	940	1,780	4,729	7,797	432	4,127	1,703	73
16 अक्टूबर 2007	2,273	1,203	868	2,013	1,184	1,157	3,778	7,011	343	5,328	1,794	111
17 अक्टूबर 2007	3,206	3,279	961	2,264	1,302	2,651	8,195	8,793	461	3,741	2,805	42
18 अक्टूबर 2007	2,783	1,815	522	1,865	1,082	1,573	6,149	5,082	533	6,465	1,808	158
19 अक्टूबर 2007	5,680	1,375	446	2,399	1,270	2,795	6,094	6,302	516	4,875	2,344	181
बिक्री												
15 अक्टूबर 2007	2,149	753	258	1,305	901	1,982	6,100	6,457	928	4,145	1,643	110
16 अक्टूबर 2007	2,048	948	315	1,380	1,124	1,147	3,662	7,024	384	6,018	1,734	129
17 अक्टूबर 2007	2,529	3,870	1,629	1,568	1,212	2,788	8,092	8,767	607	3,744	2,225	64
18 अक्टूबर 2007	2,955	1,747	713	1,445	1,104	2,296	5,742	5,289	700	6,357	2,058	173
19 अक्टूबर 2007	3,333	2,572	633	1,212	1,258	2,753	6,109	5,975	741	5,822	2,348	217

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

टिप्पणी : ये आंकड़े वणिक् और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह					
	28 सितंबर 2007	5 अक्टूबर 2007	12 अक्टूबर 2007	19 अक्टूबर 2007	26 अक्टूबर 2007	2 नवम्बर 2007
1	2	3	4	5	6	7
राशि	198.66	149.26	112.20	157.73	106.30	137.79

टिप्पणी : 8 अक्टूबर 2005 से थोक ऋण बाजार घटक में प्रत्येक शनिवार को व्यापार बंद रहेगा ।

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ रुपए)

धारक	2 नवम्बर 2007					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (2+3+4+5)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	24,175	13,594	30,670	68,439	1,299	16,317
राज्य सरकारें	34,311	26,684	4,491	4,675	70,161	5,318	-3,242
अन्य	388	13,825	12,906	24,694	51,813	-3,868	21,538

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार

(भा.रि.बैंक पर भार (डिवाल्चमेंट) / निजी जमा तथा खुला बाजार परिचालनों में विक्री / खरीद)

(अंकित मूल्य करोड़ रुपए में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2007-2008 (2 नवम्बर 2007 तक)	2006-2007 (3 नवम्बर 2006 तक)	2006-2007	2007-2008 (2 नवम्बर 2007 तक)	2006-2007 (3 नवम्बर 2006 तक)	2006-2007
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल जिसमें :	1,15,000	98,000	1,46,000	82,875	62,986	1,06,921
1.1 भारिबैं पर भार / निजी जमा	—	—	—	—	—	—
2. भारिबैंक खुला बाजार परिचालन - विक्री खरीद	3,413 50	3,674 695	5,845 720	—	—	—

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)[@]

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	26 अक्टूबर 2007 को समाप्त सप्ताह			2 नवम्बर 2007 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक**		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक**	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2007-08	—	—	—	—	—	—
2008-09	—	—	—	300	7.1614	7.1814
2009-10	7,620	7.5919	7.7597	5,738	7.5841	7.7753
2010-11	622	7.6886	7.8133	993	7.6754	7.7792
2011-12	100	7.7055	8.4000	10	7.6675	7.6675
2012-13	13	7.7317	7.8305	4	—	—
2013-16	1,856	7.7172	7.8547	3,132	7.7113	7.9413
2016-17	1,597	7.8019	7.9569	471	7.8184	7.9429
2017 से आगे	18,795	7.8056	8.7403	16,577	7.7996	8.7208
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	96	7.9000	8.3594	245	7.9000	8.3785
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	385	6.0011	6.2501	220	5.5556	6.2998
ख) 15 - 91 दिन	4,024	5.9536	7.0196	2,824	6.2489	7.3500
ग) 92 - 182 दिन	989	6.9499	7.3200	726	7.1499	7.5326
घ) 183 - 364 दिन	1,184	7.1601	7.3624	68	7.3000	7.3200
II. भा.रि.ब. : विक्री	—			25		
: खरीद	—			—		
III. रेपो लेनदेन £ (भा. रि. ब. से इतर)						
	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	89,180	4.00 (1)	6.20 (17)	1,02,337	5.90 (1)	6.30 (3)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	248	5.85 (1)	6.05 (3)	555	6.00 (1)	6.20 (3)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	1,049	5.70 (1)	6.08 (3)	1,402	5.95 (1)	6.15 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	614	5.75 (1)	6.05 (3)	1,031	6.00 (1)	6.20 (3)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	1,535	5.95 (1)	6.05 (3)	2,150	5.85 (1)	6.15 (3)
IV. भा.रि.ब. : रेपो £[^]	—	—	—	—	—	—
: रिवर्स रेपो !	1,48,930	—	6.00	46,265	—	6.00

@ : भा.रि.ब. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* : भा.रि.ब. विक्री और खरीद में अन्य कार्यालयों में हुए लेनदेन भी शामिल हैं।

£ : कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ : दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो नीलामी शामिल है।

** : न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (5 करोड़ रुपये से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रेपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।
साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः 450 रुपए और 1,250 रुपए तथा विदेश में क्रमशः 30 अमरीकी डॉलर और 80 अमरीकी डॉलर हैं।

श्री. ए. करुणागरन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई - 400 001 के लिए स्वरूपबद्ध, प्रकाशित और उनके द्वारा ऑनलुकर प्रेस लि., 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 टेलि.: 2218 3544 फॅक्स : (91-22) 2218 8702 में मुद्रित।